

‘हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता’ (प्राइमरी २०२२)

देश-विदेश में विख्यात, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, वैश्विक सोच के साथ-साथ भारतीय सोच व विचार धारा को भी बच्चों के मन में रोपित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। इसी प्रयास के अंतर्गत प्राइमरी विभाग के बच्चों ने आभासीय माध्यम पर ‘हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता’ आयोजित की। प्राइमरी विभाग की कक्षा एक से लेकर चार तक के सभी बच्चों ने सुप्रसिद्ध कवियों के साथ-साथ नये कवियों की रचनाएँ भी चुनीं और बड़ी लगन से तैयारी की।

प्रतियोगिता के आरंभ में प्राइमरी विभाग की प्रधानाचार्या मिस तारापोरवाला ने सभी बच्चों को शुभकामनाएँ दीं। २ फ़रवरी २०२२



को चारों सदन के ‘कब कप्तानों’ ने सबका स्वागत किया। उनके कुशल संचालन में कविता - पाठ आरम्भ हुआ।

काव्य - पाठ के पहले चरण

में कक्षा एक तथा दो के विद्यार्थियों ने अपनी सुमधुर आवाज़ में शुद्ध उच्चारण और भावाभिव्यक्ति से कविताएँ सुनाई और सभी को प्रभावित किया।



कविता पाठ के दूसरे चरण में कक्षा तीन तथा चार के विद्यार्थियों ने अपनी सशक्त वाणी से सभी को अभिभूत कर दिया। दोनों स्तर पर कविताएँ प्रकृति-वर्णन, समसामयिक विषयों, हास्य तथा ओज सभी भावों से भरी थीं। स्पष्ट उच्चारण, स्वर के उतार-चढ़ाव तथा भावपूर्ण अभिव्यक्ति की

सराहना की गई।

अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर माध्यम कविता है, हर प्रतियोगी ने सिद्ध कर दिया।

प्रतियोगिता के प्रथम चरण के विजेता इस प्रकार हैं -

प्रथम स्थान - Jaguar House

द्वितीय स्थान - Panther House

तृतीय स्थान- Jaguar House & Tiger

House

प्रतियोगिता के द्वितीय चरण के विजेता हुए-

प्रथम स्थान - Lion House

द्वितीय स्थान - Jaguar House & Panther House

तृतीय स्थान - Tiger House

दोनों चरणों के समस्त प्रतियोगियों के अंकों की गणना के अनुसार परिणाम इस प्रकार हैं-

प्रथम स्थान- Jaguar House

द्वितीय स्थान- Panther House

तृतीय स्थान- Tiger House

निर्णायकों द्वारा परिणाम घोषणा तथा 'कब कप्तान' के धन्यवाद के शब्दों के साथ प्रतियोगिता समाप्त हुई।

Link for Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=An6tQWrQX9I>